

नई बहियों के मुहूर्त की विधि Nai bahiyōm ke Muhūrta kī vidhi

सामग्री : अष्टद्रव्य धुले हुए, धूपदान, दीपक, लाल कपड़ा, सरसों, दो थालियाँ, श्रीफल, जल भरा कलश, नाला (धागा), शास्त्रजी, धूप, अगरबत्ती, पाटे, दो चौकियाँ, कुंकुम, केशर घिसी हुई, कोरे पान, दवात, कलम, फूलमालाएं, सिंदूर घी में मिलाकर (श्री महावीराय नमः और शुभ लाभ दुकान की दीवाल पर लिखने को), नई बहियाँ, आदि।

सायंकाल को उत्तम गोधूलिक लग्न में अपनी दुकान के पवित्र स्थान में नई बहियों का नवीन संवत् से शुभ मुहूर्त करें। उसके लिये ऊँची चौकी पर थाली में केशर से 'श्री महावीराय नमः' लिखकर शास्त्रजी विराजमान करें, और दूसरी चौकी पर एक थाली में स्वस्तिक मांडकर सामग्री चढ़ाने के लिये रखें। दाहिनी ओर घी का दीपक, बाँई ओर धूपदान रहना चाहिये। दीपक में घृत इस प्रमाण से डाला जाय कि रात्रि भर वह दीपक जलता रहे। अष्ट द्रव्य-जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल व अर्घ्य बनावें। बहियाँ, दवात, कलम आदि पास में रख लें। पूजा करने के लिये पूजकों को पूर्व या उत्तर-दिशा में मुख करके बैठना चाहिए। पूजा गृहस्थाचार्य द्वारा या स्वयं करनी चाहिए। सर्वप्रथम पूजन में बैठे हुए सभी सज्जनों को तिलक लगाना चाहिये। उस समय यह श्लोक पढ़ें :-

**मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी ।
मंगलं कुंदकुंदाद्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ॥**

Sāmagrī : Aṣṭadravya dhulē hu'ē, dhūpadāna, dīpaka, lāla kapaṛā, sarasōn, dō thāliyāṁ, śrīphala, jala bharā kalaśa, nālā (dhāgā), śāstrājī, dhūpa, agarabattī, pātē, dō caukiyāṁ, kuṅkuma, kēśara ghisī hui, kōrē pāna, davāta, kalama, phūlamālāyēm, sindūra ghī mēm milākara (śrī mahāvīrāya namah aura śubha lābha dukāna kī dīvāla para likhanē kō), nai bahiyāṁ, ādī.

Sāyaṅkāla kō uttama gōdhūlika lagna mēm apanī dukāna kē pavitra sthāna mēm nai bahiyōm kā navīna samvat sē śubhamuhūrta karēm. Usakē liyē ūñcī caukī para thālī mēm kēśara sē 'śrī mahāvīrāya namah' likhakara śāstrājī virājamāna karēm, aura dūsarī caukī para ēka thālī mēm sātiyā māṅḍakara sāmagrī caṛhānē kē liyē rakhēm. Dāhinī ōra ghī kā dīpaka, bāim ōra dhūpadāna rahanā cāhiyē. Dīpaka mēm ghṛta isa pramāṇa sē ḍālā jāya ki rātri bhara vaha dīpaka jalatā rahē. Aṣṭa dravya-jala, candana, akṣata, puṣpa, naivēdyā, dīpa, dhūpa, phala va arghya banāvēm. Bahiyāṁ, davāta, kalama ādī pāsa mēm rakha lēm. Pūjā karanē kē liyē pūjakōm kō pūrva yā uttara-diśā mēm mukha karakē baiṭhanā cāhi'yē. Pūjā grhasthācārya dvārā yā svayam karanī cāhi'yē. Sarvaprathama pūjana mēm baiṭhē hu'ē sabhī sajjanōm kō tilaka lagānā cāhiyē. Usa samaya yaha ślōka paṛhēm:-

**Maṅgalaṁ bhagavān vīrō, maṅgalaṁ gautamō gaṇī |
maṅgalaṁ kundakundādyō, jainadharmōstu maṅgalam ॥**

पश्चात् इस प्रकार पूजा प्रारम्भ करें-

अरिहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः सिद्धाश्च सिद्धीश्वराः ।

आचार्याः जिनशासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायकाः ॥

श्रीसिद्धांत-सुपाठकाः, मुनिवरा रत्नत्रयाराधकाः ।

पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नः मंगलम् ॥

ॐ जय जय जय! नमोऽस्तु नमोऽस्तु नमोऽस्तु!

णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं, णमो उवज्जायाणं, णमो लोए सव्वसाहूणं।

ॐ ह्रीं अनादि-मूलमंत्रेभ्यो नमः।

(पुष्पांजलि क्षेपण करें)

चत्तारि मंगलं। अरिहंत मंगलं। सिद्ध मंगलं। साहू मंगलं। केवलि पण्णत्तो धम्मो मंगलं। चत्तारि लोगुत्तमा। अरिहंत लोगुत्तमा। सिद्ध लोगुत्तमा। साहू लोगुत्तमा। केवलि पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि सरणं पव्वज्जामि। अरिहंत सरणं पव्वज्जामि। सिद्धसरणं पव्वज्जामि। साहू सरणं पव्वज्जामि। केवलि पण्णत्तं धम्मं सरणं पव्वज्जामि।

ॐ नमोऽर्हते स्वाहा।

(पुष्पांजलि क्षेपण करें और निम्न अर्घ्य चढ़ायें)

paścāt isa prakāra pūjā prārambha karēm-

Arihantō bhagavanta indramahitāh Sid'dhāśca sid'dhīśvarāh |

Ācāryāh Jinaśāsanōnнатikarāh Pūjyā upādhyāyakāh ||

Śrīsid'dhānta-supāṭhakāh, Munivarā ratnatrayārādhakāh |

Pañcāitē paramēṣṭhinah Pratidinaṁ kurvantu nah Maṅgalam ||

Om̐ jaya jaya jaya! namōstu namōstu namōstu!

Namō arihantāṇaṁ, ṇamō sid'dhāṇaṁ,

ṇamō ā'riyāṇaṁ, ṇamō uvajjhāyāṇaṁ, ṇamō lō'ē savvasāhūṇaṁ.

Om̐ hrīm̐ anādi-mūlamāntrēbhyō namah |

(Puṣpāñjali kṣēpaṇa karēm)

Cattāri maṅgalaṁ, arihantā maṅgalaṁ, sid'dhā maṅgalaṁ, sāhū maṅgalaṁ, kēvalipaṇṇattō dham'mō maṅgalaṁ. Cattāri lōguttamā, arihantā lōguttamā, sid'dhā lōguttamā, sāhū lōguttamā, kēvalipaṇṇattō dham'mō lōguttamō. Cattāri saraṇaṁ pavvajjāmi, arihantē saraṇaṁ pavvajjāmi, sid'dhē saraṇaṁ pavvajjāmi, sāhū saraṇaṁ pavvajjāmi, kēvalipaṇṇattam̐ dham'mam̐ saraṇaṁ pavvajjāmi |

Om̐ namō ar'hatē svāhā |

(Puṣpāñjali kṣēpaṇa karēm aura nimna arghya caṛhāyēm)

श्री देव-शास्त्र-गुरु का अर्घ्य

जल परम-उज्ज्वल गंध अक्षत पुष्प चरु दीपक धरूँ ।

वर-धूप निरमल-फल विविध बहु-जनम के पातक हरूँ ॥

इह-भाँति अर्घ चढ़ाय नित भवि करत शिव-पंकति मचूँ ।

अरिहंत श्रुत-सिद्धांत गुरु-निर्गन्थ नित पूजा रचूँ ॥

वसुविधि-अर्घ संजोय के, अति-उछाह मन कीन ।

जा सौं पूजूं परम-पद, देव-शास्त्र-गुरु तीन ॥

ॐ ह्रीं श्रीदेव-शास्त्र-गुरुभ्यः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

Srī Dēva-Sāstrā-Guru Kā Arghya

Jala parama-ujjala gandha akṣata puṣpa caru dīpaka dharūṁ |
 Vara-dhūpa niramala-phala vividha bahu-janama kē pātaka harūṁ ||
 Iha-bhām̐ti argha caṛhāya nita bhavi karata śiva-pankati macūṁ |
 Arihanta śruta-sid'dhānta guru-nirgrantha nita pūjā racūṁ ||

Vasuvīdhi-argha sañjōya kē, ati-uchāha mana kīna |
 Jā sōm̐ pūjuṁ parama-pada, dēva-śāstra-guru tīna ||
 Ōm̐ hrīm̐ śrīdēva-śāstrā-gurubhyah arghyam̐ nirvapām̐ti svāhā |

विहरमान बीस तीर्थकरों का अर्घ्य

Viharamāna bīsa tīrthankarōṁ kā arghya

जल-फल आठों द्रव्य संभार, रत्न जवाहर भर-भर थाल |
 नमूं कर जोड़, नित प्रति ध्याऊँ भोरहिं भोर ||
 पाँचों मेरु विदेह सुथान, तीर्थकर जिन बीस महान् |
 नमूं कर जोड़, नित प्रति ध्याऊँ भोरहिं भोर ||

ॐ ह्रीं श्रीविदेहक्षेत्रस्य श्रीसीमंधरादि विंशति तीर्थकरेभ्यः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

Jala-phala āṭhōṁ dravya sambhāra, ratna javāhara bhara-bhara thāla |
 Namūṁ kara jōṛa, nita prati dhyā'ūṁ bhōrahiṁ bhōra ||
 Pāñcōṁ mēru vidēha suthāna, tīrthankara jina bīsa mahān |
 Namūṁ kara jōṛa, nita prati dhyā'ūṁ bhōrahiṁ bhōra ||

Ōm̐ hrīm̐ śrīvidēhakṣētrasya śrīsīmandharādi vīnśati tīrthankarēbhyah arghyam̐ nirvapām̐ti svāhā |

तीन लोक स्थित जिनबिम्बों का अर्घ्य

Tīna lōka sthita jinabimbōṁ kā arghya

यावन्ति जिनचैत्यानि, विद्यन्ते भुवनत्रये |

तावन्ति सततं भक्त्या, त्रिः परीत्य नमाम्यहम् ||

ॐ ह्रीं श्रीत्रिलोक-सम्बधि-जिनेन्द्र-बिम्बेभ्यः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

yāvanti jinacaityāni, vidyantē bhuvanatrayē |

Tāvanti satataṁ bhaktyā, tri: Parītya namāmyaham ||

Ōm̐ hrīm̐ śrītrilōka-sambadhi-jinēndra-bimbēbhyah arghyam̐ nirvapām̐ti svāhā |

सिद्ध परमेष्ठी का अर्घ्य

Sid'dha Paramēṣṭhī Kā Arghya

जल-फल वसु वृंदा अरघ अमंदा, जजत अनंदा के कंदा ।

मेटो भवफंदा सब दुःख-दंदा, हीराचंदा तुम वंदा ॥

त्रिभुवन के स्वामी, त्रिभुवननामी, अंतरजामी अभिरामी ।

शिवपुर-विश्रामी, निज-निधि-पामी, सिद्ध-जजामी सिरनामी ॥

ॐ ह्रीं श्रीअनाहत-पराक्रमाय सर्व-कर्म-विनिर्मुक्ताय सिद्धपरमेष्ठिने अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

Jala-phala vasu vṛndā aragha amandā, jajata anandā kē kandā |

Mēṭō bhavaphandā saba duKha-dandā, hīrācandā tuma vandā ||

Tribhuvana kē svāmī, tribhuvanānāmī, antarajāmī abhirāmī |

Śivapura-vīśrāmī, nija-nidhi-pāmī, sid'dha-jajāmī siraanāmī ||

Om hrīm śrīanāhata-parākramāya sarva-karma-vinirmuktāya sid'dhaparamēṣṭhinē arghyaṁ
nirvapāmīti svāhā |

चौबीस तीर्थकरों का अर्घ्य

Caubīsa tītharkarōm kā arghya

जल-फल आठों शुचि-सार, ताको अर्घ करूं ।

तुमको अरपूं भवतार, भव तरि मोक्ष वरूं ॥

चौबीसों श्री जिनचंद, आनंदकंद सही ।

पद जजत हरत भव फंद, पावत मोक्ष-मही ॥

ॐ ह्रीं श्रीवृषभादि-वीरान्त-चतुर्विंशतितीर्थकरेभ्यः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

Jala-phala āṭhōm śuci-sāra, tākō argha karuṁ |

Tumakō arapuṁ bhavatāra, bhava tari mōkṣa varuṁ ||

Chaubīsō śrījinacanda, ānandakanda sahī |

Pada jajata harata bhava phanda, pāvata mōkṣa-mahī ||

Om hrīm śrīvṛṣabhādi-vīrānta-catuviṅśatitītharkarēbhyaḥ arghyam nirvapāmīti svāhā |

(इसके बाद श्री महावीर-जिन-पूजा (पृष्ठ 131) करें। तत्पश्चात् आगे दी हुई सरस्वती-पूजन आदि करें)

(Isakē bāda śrī mahāvīra-jina-pūjā (pṛṣṭha 131) karēm. Tatpāścāt āgē dī hui sarasvatī-pūjana ādi
karēm)

* * * A * * *